

नवभारत

2 लाख के नकली नोटों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार



कल्याण : कल्याण की महात्मा फुले चौक पुलिस (Mahatma Phule Chowk Police) ने भारतीय करेंसी के 2 लाख नकली नोटों (Fake Notes) के साथ तीन आरोपियों (Accused) को गिरफ्तार (Arrested) कर हवालात में पहुंचा दिया है। जब्त किए गए सभी नोट 200 रुपए की नोट में हैं। आगे की जांच पड़ताल करते हुए पुलिस इस गिरोह के मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। कल्याण के महात्मा फुले पुलिस स्टेशन में कार्यरत एक पुलिस अधिकारी दीपक सरोदे को गुप्त सूचना मिली कि, कल्याण पश्चिम के अनिल पैलेस लॉज में तीन युवक ठहरे हुए हैं। उनके पास नकली नोट हैं। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक होनमाने के मार्गदर्शन में पुलिस अधिकारी दीपक सरोदे अपनी टीम के साथ लॉज पहुंचे। लॉज के एक कमरे में तीन युवक एक साथ आए। उनके कमरे की तलाशी लेने पर पुलिस को इस कमरे से दो लाख के नकली नोट मिले। ये सभी दो सौ रुपए के नोट हैं। महात्मा फुले पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है। इन तीनों आरोपियों के नाम मोहम्मद आरिफ, सूरज पुजारी और करण रजक हैं।

दिल्ली से लाए नकली नोट इन आरोपियों में करण रजक कल्याण पूर्व के पत्रीपूल परिसर में रहता है और करण रिक्शा चलाता है। सूरज पुजारी भी पत्रीपूल इलाके में ही रहता है। सूरज कुली का काम करता है। मोहम्मद आरिफा उत्तर प्रदेश से हैं। कुछ दिन पहले वह पत्रीपूल में ही रहता था। नकली नोटों को दुकानदारों से कुछ खरीदकर और उन्हें ये नकली नोट देकर बाजार में बेचने की उनकी कार्य सैली थी, प्रारंभिक जानकारी मिल रही है कि, ये तीनों ये नोट दिल्ली से लाए हैं। बताया गया है कि, उनका मुख्य सूत्रधार दिल्ली में है फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

Source: <https://www.enavabharat.com/state/maharashtra/thane/3-accused-arrested-with-fake-notes-of-2-lakhs-591575/>